



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 12-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 19, 2019 (PHALGUNA 28, 1940 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

आदेश

दिनांक 12 मार्च, 2019

क्रमांक 2/7/1996-2 गृह (गोपनीय).— चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवश्यक है।

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों द्वारा भी उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 12/03/2019 से 11/06/2019 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की जा सकेंगी।

चण्डीगढ़:
दिनांक 8 मार्च, 2019

डॉ० एस० एस० प्रसाद,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

56917—C.S.—H.G.P., Chd.